



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525]

नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 14, 1982/कार्तिक 23, 1904

No. 525]

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 14, 1982/KARTIKA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली 1 नवम्बर, 1982

का० भा० 804 (अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नेट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर 14 नवम्बर 1982 से माडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के माडला और बालाघाट जिले की स्थानीय संस्थाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1(24)/82 आर० प्रा० सं० (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 804(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, on being requested so to do by Central Bank of India, establishes.

with effect from the 14th November 1982, a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Mandla and Balaghat in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1(24)/82-RRB(I)]

का० भा० 805 (अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा माडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथोजक नेट्रल बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करके, माडला का उप स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहाँ पर माडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1(24)/82 आर० प्रा० सं० (1)]

S.O. 805(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Mandla as the place where Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1(24)/82-RRB (II)]

का० भा० 806 (अ):—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खंड के प्रायोजकों के लिए माडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक माडला

को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 1 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1(24)/82—प्रारं. प्रारं. बी०(III)]

बी० के० बी०, संयुक्त सचिव

S.O. 806(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank, Mandla being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F.1 (24)/82-RRB (III)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

का० आ० 807 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री जे० प्रारं. मित्रा को माण्डला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माण्डला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14-11-1982 से प्रारम्भ होकर 30-11-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जे० प्रारं. मित्रा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1(24)/82—प्रारं. प्रारं. बी०(IV)]

राम बेहरा, सचिव

S.O. 807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri J.R. Mitra as the Chairman of the Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank, Mandla and specifies the period commencing on the 14-11-1982 and ending with the 30-11-1985 as the period for which the said Shri J. R. Mitra shall hold office as such Chairman.

[No. F.1 (24)/82-RRB (IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कल)

अधिसूचना

बम्बई, 14 नवम्बर, 1982

का० आ० 808 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, यथा:—

“माण्डला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, माण्डला (मध्य प्रदेश)”

[प्रारं. पी० सी० डी० संख्या 242/आई एन सी एन/11-82]

एच० बी० शिवमग्ली, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Cell)

NOTIFICATION

Bombay, the 14th November, 1982

S.O. 808(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank, Mandla (M.P.)”.

[RPCD. No. 242/INCL/311-82]

H.B. SHIVAMAGLI, Executive Director